

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांपैकी कागदपत्र पडताळणीस उपस्थित न राहिलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती रद्द करण्याबाबत.

**महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक आरोग्य विभाग**

शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२४/प्र.क्र. ३८२/सेवा-३

१० वा मजला, जी. टी. हॉस्पिटल संकुल इमारत,
क्रॉफर्ड मार्केट, नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००९
तारीख: १९ जून, २०२४.

संदर्भ :-

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/मवैआसे२/कक्ष-२अ/टे-३/वै.अ.
पदभरती/१८६८/२४, दि. ०७.०६.२०२४

शासन आदेश :-

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ ची रिक्त पदे नामनिर्देशनाने भरण्याबाबत दि.३१.०१.२०२४ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर जाहिरातीच्या अनुषंगाने १४४६ उमेदवारांना दि.२९.०२.२०२४ रोजी वैयक्तिक नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यात आले होते.

२. उमेदवारांना नियुक्ती आदेश निर्गमित केल्यानंतर त्यापैकी काही उमेदवार कागदपत्र पडताळणीस उपस्थित राहिलेले नाहीत. संदर्भाधीन पत्रान्वये संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी दि.३१.०५.२०२४ पर्यंत कागदपत्रे पडताळणीस उपस्थित न राहिलेल्या ४४९ उमेदवारांची यादी सादर केली आहे.

उमेदवारांच्या नियुक्ती आदेशात उमेदवाराने पदस्थापनेचे आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत नेमणूकीच्या ठिकाणी रुजू होण्याबाबत व रुजू न झाल्यास १५ दिवसानंतर नियुक्ती आदेश आपोआप रद्द होण्याबाबतची तरतूद नमूद करण्यात आली आहे. नियुक्ती आदेश देण्यात आलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश दिल्यानंतर कागदपत्र पडताळणीकरिता मुदतवाढ देऊनही ते कागदपत्र पडताळणीस उपस्थित राहिलेले नाहीत. सबब, प्रतिकाधीन यादीतील उमेदवारांना नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्याकरिता सदर उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश रद्द करणे आवश्यक आहे.

३. त्यास अनुसरून संदर्भाधिन पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या यादीनुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गात नियुक्ती दिलेल्या उमेदवारांपैकी दि.३१.०५.२०२४ पर्यंत कागदपत्रे पडताळणीस उपस्थित न राहिलेल्या सोबतच्या “विवरणपत्र-अ” मधील ४४९ उमेदवारांची नियुक्ती रद्द करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६१११२३५५७००१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

**SANJAY
DHONDU
DAGALE**

Digitally signed by SANJAY DHONDU DAGALE
DN: cn=In, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA,
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT,
2.5.4.20=91c5ac1bc356eb88dac279997c206f0
bc13ac253742cc397488b07c83657b5f,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
serialNumber=02E1EAC848E866AA47BB931E6
668D24F8AEF7B3F3FA0341F35962CC858518C
62, cn=SANJAY DHONDU DAGALE
Date: 2024.06.15 12:58:34 +05'30'

सं. धों. डगळे

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

संबंधित उमेदवार यांना आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत

प्रत,

१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई.
२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई .
३. संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे.
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व).
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, सर्व परिमंडळे.
६. जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य/जिल्हा रुग्णालये (सर्व).
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व).
८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर.
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर.
१०. अधिदान व व लेखाधिकारी, मुंबई
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व).
१२. मा.मंत्री (आरोग्य), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव,
१३. अपर मुख्य सचिव, सा. आ. विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक
१४. निवड नस्ती (सेवा-३)

“विवरणपत्र – अ”

Sr.No.	Name of Candidate	Selected from Category	Selected from Horizontal Category	Selected on Speciality	Order No	Order Date
1	DR PRITAM CHHAGAN PADVI	ST		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१४२२)/सेवा-३	29/02/2024
2	SANGRAM VISHWANATH PARBAT	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२३१)/सेवा-३	29/02/2024
3	NAGE ARUNKUMAR RAMESH	NT_B		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६१७)/सेवा-३	29/02/2024
4	IRFAN SARVAR SAIKH	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०५६)/सेवा-३	29/02/2024
5	AKASH DNYANDEO SARKATE	OPEN		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३६)/सेवा-३	29/02/2024
6	PRANIT RAJARAM KALE	NT_C		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९७०)/सेवा-३	29/02/2024
7	ASHISH TATOBAJI NIMJE	SBC		PSM	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७३८)/सेवा-३	29/02/2024
8	AMAN MISHRA	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३५२)/सेवा-३	29/02/2024
9	PRASHANT BHIMRAO AGALDARE	ST		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५६६)/सेवा-३	29/02/2024
10	ABHISHEK PADMAKAR DESHMUKH	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०८५)/सेवा-३	29/02/2024
11	VAIBHAV MAHADEO GAME	OBC		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७०२)/सेवा-३	29/02/2024
12	BALAJI SHANKARRAO MANE	OPEN		Ear-Nose-Throat (ENT)	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२३)/सेवा-३	29/02/2024

13	SNEHAL RAMCHANDRA ZORE	NT_C	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९८८)/सेवा-३	29/02/2024
14	PAURNIMA PRAKASH PARDESHI	NT_B		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६९९)/सेवा-३	29/02/2024
15	VIKAS VIJAY JADHAO	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९०६८)/सेवा-३	29/02/2024
16	TANDLE MAHESH MANMOHAN	NT_D		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९४२७)/सेवा-३	29/02/2024
17	PRITAMKUMAR RAJENDRA KADAM	ST		Anansthethist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५५७)/सेवा-३	29/02/2024
18	VARSHA RAMDAS JADHAV	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९२५९)/सेवा-३	29/02/2024
19	PRASHANT MANIKRAO TELHARKAR	OBC		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७९४)/सेवा-३	29/02/2024
20	RUPAL ANIL DIWARE	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९९२५)/सेवा-३	29/02/2024
21	ABDUNNOOR NISAR PATANKAR	OPEN		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९२७)/सेवा-३	29/02/2024
22	OMKAR SATISH CHOUGULE	OPEN	Sport	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७८९)/सेवा-३	29/02/2024
23	SHALAKA DEEPAK TUPKARI	OPEN	Sport	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७८५)/सेवा-३	29/02/2024
24	PRADNYA NARAYAN PAWAR	OPEN	Women	PSM	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३७२)/सेवा-३	29/02/2024
25	KETAN ASHOK INGOLE	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९०७८)/सेवा-३	29/02/2024
26	MAYUR MADHUKAR GHODKE	SC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७९९)/सेवा-३	29/02/2024
27	VAIBHAV BUDDHANAND WAGHMARE	SC		Rediologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४६२)/सेवा-३	29/02/2024
28	JAYSHREE RAURALE	OPEN		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९७४)/सेवा-३	29/02/2024

29	PRATI KSHA PRAMOD STHUL	SC	Sport	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८६४)/सेवा-३	29/02/2024
30	SURAJ GOVARDHANDASJI RATHI	OPEN		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३०)/सेवा-३	29/02/2024
31	DIPALI SUBHASHRAO BONDE	OPEN		Ophthalmologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१६६)/सेवा-३	29/02/2024
32	PRATIMA DILIP PATIL	OPEN	Women	Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४४५)/सेवा-३	29/02/2024
33	ANKUSH SUDHAKAR DESHMUKH	ST		Anesthetist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५७०)/सेवा-३	29/02/2024
34	MANALI PRAMOD RAUT	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११८९)/सेवा-३	29/02/2024
35	MAHESH BHAGWAT DUDHE	OPEN		Radiologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२८३)/सेवा-३	29/02/2024
36	SURAJ RAMESH HIWARKAR	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०५८)/सेवा-३	29/02/2024
37	PRASHANT RAMBHAU MESHRAM	OPEN		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१८२)/सेवा-३	29/02/2024
38	PRALHAD SURESHRAO POTDAR	OPEN		PSM	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२७२)/सेवा-३	29/02/2024
39	KOMAL TUSHAR SAKHARE	SC		Anesthetist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५१८)/सेवा-३	29/02/2024
40	AKSHATA NANAJI DAKHARE	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११८९)/सेवा-३	29/02/2024
41	MAHIMA DEVENDRA MUKUND	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११८८)/सेवा-३	29/02/2024
42	SAGAR ASHOKRAO KHANDARE	OPEN		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२८८)/सेवा-३	29/02/2024
43	KRUTIKA RAJENDRA PATANKAR	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२३५)/सेवा-३	29/02/2024
44	ARUN DATTATRAYA GHULE	NT_D		Blood Transfusion	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६५४)/सेवा-३	29/02/2024

45	ASHISH BHAGWANRAO JATALE	NT_C		Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६२७)/सेवा-३	29/02/2024
46	KISHOR ASHOK SAGPELLIWAR	SC		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४५९)/सेवा-३	29/02/2024
47	YOGITA DHANRAJ RATHOD	VJ_A	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९४९)/सेवा-३	29/02/2024
48	KANCHAN NAMDEV NANDANE	NT_B		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६९६)/सेवा-३	29/02/2024
49	MADHUR MADHUSUDAN MANIYAR	OPEN		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८०)/सेवा-३	29/02/2024
50	SNEHAL ASHOK THORAT	SC		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५२०)/सेवा-३	29/02/2024
51	SWAPNITA ARUN GUTTE	OPEN		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२२२)/सेवा-३	29/02/2024
52	NISHAT RANA SHAIKH ABDUL JAWED	OPEN		Ophthalmologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३९)/सेवा-३	29/02/2024
53	ARUN BHAGWANRAO KALE	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९३४४)/सेवा-३	29/02/2024
54	SHWETA SURESH KUMBHAR	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९०८७)/सेवा-३	29/02/2024
55	GANESH MANOHAR SAPKAL	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९०५७)/सेवा-३	29/02/2024
56	JANHAVI MOHAN PATIL	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९०६९)/सेवा-३	29/02/2024
57	ADITI ANAND DESHPANDE	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९२३८)/सेवा-३	29/02/2024
58	SHITAL BHARATRAO TUPKAR	OPEN	Women	Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३४७)/सेवा-३	29/02/2024
59	SHAIKH KAUSER MOHD YASEEN	OPEN		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९२८)/सेवा-३	29/02/2024
60	GIRISH VASANT GAIKWAD	SC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८०७)/सेवा-३	29/02/2024

61	VIPIN BHAGWAN KHADSE	OBC		Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७०९)/सेवा-३	29/02/2024
62	SHUBHAM RAMRAO JAMADAR	OPEN		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२५८)/सेवा-३	29/02/2024
63	RUSHIKESH SADASHIV JIRAPURE	OBC		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६७७)/सेवा-३	29/02/2024
64	KUNAL KASHINATH RUPWANE	OPEN		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३०६)/सेवा-३	29/02/2024
65	DR PRACHI VISHWAMBHARRAO WARWANTKAR	SC		Gynacologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५४६)/सेवा-३	29/02/2024
66	ANITA SURESH BUTE	OPEN	Women	Gynacologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३९६)/सेवा-३	29/02/2024
67	AGRAWAL GANESH SHYAMSUNDAR	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२८९)/सेवा-३	29/02/2024
68	BHAWANA DATTATRAYA PARANE	OPEN		Gynacologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२८२)/सेवा-३	29/02/2024
69	KALPESH RAMESH SHIRSATH	OBC		Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६७८)/सेवा-३	29/02/2024
70	SANDHYA GANGADHARRAO LONE	SC		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४६८)/सेवा-३	29/02/2024
71	SANJAY SASANE	SC		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४५२)/सेवा-३	29/02/2024
72	PRAVIN BHOJRAJ SAWARBANDHE	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०३५)/सेवा-३	29/02/2024
73	UMESH ASHOKDAS VAISHNAV	NT_B		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६०५)/सेवा-३	29/02/2024
74	MAHEK SADIYA SAYEED SHAIKH	VJ_A	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९४५)/सेवा-३	29/02/2024
75	ABHIJEET BAPURAO MULE	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३४२)/सेवा-३	29/02/2024
76	AMOL ABASAHEB MAGAR	OPEN		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३	29/02/2024

					(२४२)/सेवा-३	
77	SHWETA DILEEPRAO FUGARE	SC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८४८)/सेवा-३	29/02/2024
78	ASHWINI CHANDRAKANT SONKAMBLE	OPEN		Ophthalmologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२२६)/सेवा-३	29/02/2024
79	RANJANA MAROTI TOTEWAD	ST	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९०२)/सेवा-३	29/02/2024
80	ALAF AYUB KHAN PATHAN	OPEN		Orthopaedic Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९६८)/सेवा-३	29/02/2024
81	SRUSHTI SUHAS JADHAV	OPEN		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२२)/सेवा-३	29/02/2024
82	PRANAV UTTAMRAO POHANE	OPEN		Psychiatrist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९६५)/सेवा-३	29/02/2024
83	DR PRANITA PRAKASH PATIL	OPEN	Women	Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४३३)/सेवा-३	29/02/2024
84	SHAISTA ANJUM MOHAMMED FAROOQ	VJ_A		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९२७)/सेवा-३	29/02/2024
85	POOJA TUKARAM KADAM	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९२४५)/सेवा-३	29/02/2024
86	POOJA GANGADHAR DHUTRAJ	OPEN		PSM	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७४)/सेवा-३	29/02/2024
87	SUMEDHA MILIND PATIL	SC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८९३)/सेवा-३	29/02/2024
88	GARGI ANIL DESHMUKH	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९९४५)/सेवा-३	29/02/2024
89	PRIYANKA DILIPRAO GAWANDE	NT_C	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९८९)/सेवा-३	29/02/2024
90	SHRADDHA VIJAY SIDAM	ST	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८९४)/सेवा-३	29/02/2024
91	KAUSTUBH RAJARAM ABNAVE	SC		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४६९)/सेवा-३	29/02/2024

92	LAKSHMIKANT ASHOKRAO ROHADKAR	OPEN		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३८)/सेवा-३	29/02/2024
93	AMBIKA RAMRAJ BHASKAR	SC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८३८)/सेवा-३	29/02/2024
94	DARSHANA PANDHARINATH SONWANE	OPEN	Women	Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४१७)/सेवा-३	29/02/2024
95	ASHWINI PRAKASH BANMERU	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११६०)/सेवा-३	29/02/2024
96	SURAJ GOVARDHANDASJI RATHI	OPEN		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३१)/सेवा-३	29/02/2024
97	SACHIN SAINATH GHUGE	NT_D		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६५९)/सेवा-३	29/02/2024
98	SAYAJIRAO TUKARAM WAGADKAR	ST		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५७३)/सेवा-३	29/02/2024
99	SHAMLI DURGESH ZALKE	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११२७)/सेवा-३	29/02/2024
100	SURUSHE PRATIKSHA DATTATRAYA	OBC		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७२१)/सेवा-३	29/02/2024
101	DEEPAK KALU AHER	OPEN		Orthopaedic Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७८)/सेवा-३	29/02/2024
102	MRUNAL BHARAT KSHIRSAGAR	OPEN	Women	Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४०३)/सेवा-३	29/02/2024
103	ALMAS TANVEER IQBAL SAYED	EWS	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३५९)/सेवा-३	29/02/2024
104	GANESH MADHAVRAO SATHE	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२७५)/सेवा-३	29/02/2024
105	ZUFISHA KABIR MIRZA	EWS	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३७७)/सेवा-३	29/02/2024
106	MADHURI UTTAM TURUKMANE	SC		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५४७)/सेवा-३	29/02/2024

107	KANCHAN RAMDAS MACHE	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०६६)/सेवा-३	29/02/2024
108	MAHESH DHONDIRAJ KILJE	OBC		Radiologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७२८)/सेवा-३	29/02/2024
109	MOHAMMADI MOHAMMAD YASEEN SHAIKH	OPEN	Women	Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३२७)/सेवा-३	29/02/2024
110	ANUSHKA AJAY SAWARKAR	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११०८)/सेवा-३	29/02/2024
111	KETKI KISHOR RAUT	OPEN		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१७६)/सेवा-३	29/02/2024
112	BABITA RUSTAM NAWALKAR	NT_C		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६४२)/सेवा-३	29/02/2024
113	SHUBHAM ROHIDAS NANAVARE	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२८०)/सेवा-३	29/02/2024
114	VAISHNAVI POPATRAO SABALE	ST		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८८६)/सेवा-३	29/02/2024
115	PALLAVI NAMDEORAO SATPUTE	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११५४)/सेवा-३	29/02/2024
116	HARSHAL ANILRAO DESHMUKH	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३५१)/सेवा-३	29/02/2024
117	SHRUTI SIDHESHWAR SONWANE	OPEN		Ophthalmologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२८६)/सेवा-३	29/02/2024
118	VAIBHAV LAXMAN RATHOD	VJ_A		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९३०)/सेवा-३	29/02/2024
119	PRIYANKA DIPAK CHATAR	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१११०)/सेवा-३	29/02/2024
120	PATHAN MUNTAHA ZAID KHAN MUKEET KHAN	OPEN	Orphan	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७७२)/सेवा-३	29/02/2024
121	SNEHAL VITTHAL PAITHANKAR	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०४८)/सेवा-३	29/02/2024

122	VARSHA BABANRAO PATIL	EWS	Orphan	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७७९)/सेवा-३	29/02/2024
123	RIYA VIJAY GODE	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९०३८)/सेवा-३	29/02/2024
124	SNEHA GYANIWANT RAMTEKE	OPEN		Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२७७)/सेवा-३	29/02/2024
125	SAGAR RAMESH KALWALE	OPEN		Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२९९)/सेवा-३	29/02/2024
126	SHUBHAM VIVEKANAND CHAWALE	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९०५२)/सेवा-३	29/02/2024
127	VIVEK KESHAO MESHRAM	ST		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५७५)/सेवा-३	29/02/2024
128	POUL KRUSHNA GANESHRAO	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९२३३)/सेवा-३	29/02/2024
129	SHANTANU RAJU SAWALE	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९०९८)/सेवा-३	29/02/2024
130	MIRZA GHAZIYA ABDUL RAHEEM BAIG	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९३२६)/सेवा-३	29/02/2024
131	VIPUL BHIMRAO RATHOD	OPEN		Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९९)/सेवा-३	29/02/2024
132	HINA RAMCHANDRA UNDIRWADE	OPEN	Women	Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३९३)/सेवा-३	29/02/2024
133	PRANITA DNYANOBA NARALE	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९९८४)/सेवा-३	29/02/2024
134	POOJA VILAS KUNDALKAR	NT_C	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९८९)/सेवा-३	29/02/2024
135	SHUBHA VAIDYA	OPEN	Women	Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३४४)/सेवा-३	29/02/2024
136	ASHWINI ARUN KULKARNI	OPEN	Women	Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४२०)/सेवा-३	29/02/2024
137	BHANDWALKAR SURAJ SARJERAO	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९२९५)/सेवा-३	29/02/2024

138	SWATI LALIT AWALE	OPEN	Women	Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३८७)/सेवा-३	29/02/2024
139	PRASHANT JAYRAM SHELKE	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०९४)/सेवा-३	29/02/2024
140	PRATIKKUMAR KASHINATH KALE	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०७३)/सेवा-३	29/02/2024
141	SANDEEP SHANTKUMAR KANTHE	OPEN		Orthopaedic Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२८७)/सेवा-३	29/02/2024
142	SAMRUDDHI MANOJ DHOLE	OPEN	Women	Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४२१)/सेवा-३	29/02/2024
143	ISHANT MORESHWAR BHANARKAR	NT_B		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६०८)/सेवा-३	29/02/2024
144	ASHWINI BHAGWANRAO MUNDE	OPEN	Women	Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३६९)/सेवा-३	29/02/2024
145	PALLAVI ASHOK GAJAKOSH	OPEN	Women	Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३१६)/सेवा-३	29/02/2024
146	SHASHVAT VIJAY PUJALWAR	ST		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८६८)/सेवा-३	29/02/2024
147	SUMAIYA SALEHA SYEDA	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११६५)/सेवा-३	29/02/2024
148	MADHURI DEELIP TAYADE	OPEN	Women	Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३९२)/सेवा-३	29/02/2024
149	ARTEE MADHUKAR KANSE	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२५७)/सेवा-३	29/02/2024
150	SHRIKANT SAMBHAJI DHUMALE	ST		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१४२४)/सेवा-३	29/02/2024
151	MADHURI SAHEBRAO SOSE	NT_D	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०१४)/सेवा-३	29/02/2024
152	SAGAR ANANDA MAVALE	OPEN		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३०३)/सेवा-३	29/02/2024
153	SANDEEP NIRGUNRAO WATHORE	SC		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४५०)/सेवा-३	29/02/2024

154	ASHWINI CHANDAN GAJBHIYE	OPEN	Women	Dermatologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३३६)/सेवा-३	29/02/2024
155	VIJAYA VIVEK KELGAONKAR	OPEN		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२५७)/सेवा-३	29/02/2024
156	DNYANESHWAR DHANANJAY DESHMUKH	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३३०)/सेवा-३	29/02/2024
157	MANGESH PRAKASH NARWADE	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२७४)/सेवा-३	29/02/2024
158	UTKARSHA PRADEEP BHOJANE	OPEN		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५५)/सेवा-३	29/02/2024
159	KSHITIJA NARAYANRAO MANKAR	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११९०)/सेवा-३	29/02/2024
160	DIVYA GAUTAM RANGARI	SC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८०५)/सेवा-३	29/02/2024
161	GAYATRI AJAYRAO NEMADE	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११०२)/सेवा-३	29/02/2024
162	PRACHU SHIVAJI PALAMPALLE	ST	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९१२)/सेवा-३	29/02/2024
163	PRAMOD TULSIDAS GITTE	NT_D		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१००८)/सेवा-३	29/02/2024
164	KHAN YOHINA SULTANA	EWS	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१४०२)/सेवा-३	29/02/2024
165	GHARUP ASHOKKUMAR PATLE	OBC		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६६२)/सेवा-३	29/02/2024
166	JAGDEEP LAXMAN GAIKAWAD	VJ_A		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६०९)/सेवा-३	29/02/2024
167	PRIYA BHAURAO RATHOD	OPEN		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२६७)/सेवा-३	29/02/2024
168	SONAL GANGARAM DESHMUKH	ST		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८८९)/सेवा-३	29/02/2024
169	SHAMIKA SANJAY GAIKWAD	SC		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५२४)/सेवा-३	29/02/2024

170	PANKAJ NARAYANRAO HIWARKAR	OPEN		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२१)/सेवा-३	29/02/2024
171	SARAH FARHEEN ABDUL KAREEM	NT_B	Orphan	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७७०)/सेवा-३	29/02/2024
172	SAGRIKA JUMLE	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११४७)/सेवा-३	29/02/2024
173	RUCHA BIBISHAN JADHAV	VJ_A	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९४८)/सेवा-३	29/02/2024
174	CHANDAN GOPAL MAHAJAN	OBC		Gynacologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७३७)/सेवा-३	29/02/2024
175	SIDDHARTH UDAY PATIL	OBC		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७३१)/सेवा-३	29/02/2024
176	KUNAL ABASAHEB JADHAV	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१४३८)/सेवा-३	29/02/2024
177	SNEHAL ANANT GIRI	OPEN	Women	Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३९९)/सेवा-३	29/02/2024
178	GANESH TULSHIRAM SHINDE	SC		Rediologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४७१)/सेवा-३	29/02/2024
179	JAYVARDHAN MADANRAJ LADE	NT_B		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६१२)/सेवा-३	29/02/2024
180	MANKAR SHUBHAM SHRIKRUSHNA	OPEN		Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२१७)/सेवा-३	29/02/2024
181	DIPALI NARAYAN VIDOLE	OPEN		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३०२)/सेवा-३	29/02/2024
182	GHANASHYAM ARUN INGLE	OPEN		Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९१)/सेवा-३	29/02/2024
183	SHILPA LAXMAN TODKAR	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११४४)/सेवा-३	29/02/2024
184	ANIL ASHOKRAO PARDE	OPEN		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२२३)/सेवा-३	29/02/2024
185	SACHIN SUNDARRAO PANDHARE	OPEN		Ophthalmologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२०२)/सेवा-३	29/02/2024

186	BHARATI NAVNATH SHINDE	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३०३)/सेवा-३	29/02/2024
187	JANHVI SURESH NADRE	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३१८)/सेवा-३	29/02/2024
188	PRIYANKA DATTATRAY PAWAR	ST		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८६९)/सेवा-३	29/02/2024
189	AISHWARYA BALKRISHNA BANGDE	SC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८१७)/सेवा-३	29/02/2024
190	VIJAY RAJENDRA KHARAT	OBC	PWD	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७६२)/सेवा-३	29/02/2024
191	NIKITA RAVINDRA KUCHAR	OPEN		Pathologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८२)/सेवा-३	29/02/2024
192	VAISHNAVI NARAYAN NAPTE	NT_C	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९९४)/सेवा-३	29/02/2024
193	DIPTI SOMNATH SHIVANKAR	OPEN		PSM	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२६८)/सेवा-३	29/02/2024
194	SANTOSH RAMRAO MEKEWAR	SBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२०९)/सेवा-३	29/02/2024
195	TUSHAR JALINDAR KAMBALE	OPEN		Pathologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११४)/सेवा-३	29/02/2024
196	ABHIJEET CHANDRAKANT ARSUL	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३२५)/सेवा-३	29/02/2024
197	KRITI SAHU	OPEN		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३२)/सेवा-३	29/02/2024
198	PURVA ARVIND KARMARKAR	SC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८१४)/सेवा-३	29/02/2024
199	SASANE PRAVIN ABHIMAN	OPEN		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३४)/सेवा-३	29/02/2024
200	SWAPNIL GANGADHAR INGOLE	OPEN		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२३७)/सेवा-३	29/02/2024
201	ROHINI PRAFULLA WADATKAR	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११४८)/सेवा-३	29/02/2024

202	SNEHAL ARUN PARVE	OPEN		Pathologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७३)/सेवा-३	29/02/2024
203	PRITI YUVRAJ YADAV	OPEN	Women	Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३९७)/सेवा-३	29/02/2024
204	MEGHA DILIP KHARE	OBC		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७९२)/सेवा-३	29/02/2024
205	AKANKSHA PRASHANT DANGORE	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९०२५)/सेवा-३	29/02/2024
206	SHWETA SURENDRA MORW AL	OPEN		Psychiatrist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९५३)/सेवा-३	29/02/2024
207	MAYURI NARESH PADOLE	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९९८३)/सेवा-३	29/02/2024
208	PATOND NIVRUTTI SHIVLAL	NT_C		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६४८)/सेवा-३	29/02/2024
209	KAPIL GOPAL SHAHARE	OPEN		Ophthalmologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९६९)/सेवा-३	29/02/2024
210	PRAVIN VASANTRAO KARWADE	SC		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४९८)/सेवा-३	29/02/2024
211	PAYAL DEBILAL PATLE	OPEN	Women	Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४९०)/सेवा-३	29/02/2024
212	SAMIKSHA SHRIPATI DHAVAL	SC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८२३)/सेवा-३	29/02/2024
213	MOHAMMAD ASHFHAN MOHAMMAD YUNUSUDIN SHAIKH	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९०८३)/सेवा-३	29/02/2024
214	ROHINEE RAJABHAU JADHAV	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९३४८)/सेवा-३	29/02/2024
215	NEMANE NIRMAL CHANDRKANT	SBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९९९५)/सेवा-३	29/02/2024
216	SHRADDHA VILASRAO DESHMUKH	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९२८६)/सेवा-३	29/02/2024

217	VINIT SAHEBRAO AWASARMOL	SC		Orthopaedic Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५०१)/सेवा-३	29/02/2024
218	SYED ANESA BEGUM SYED SHOUKAT ALI	OPEN	Women	Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३६५)/सेवा-३	29/02/2024
219	DEVANAND BHIMRAO DEOSARKAR	OPEN		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४७)/सेवा-३	29/02/2024
220	VAIBHAVI RAJIVSHAH MASRAM	ST		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८७९)/सेवा-३	29/02/2024
221	VILAS GOVINDRAO RATHOD	VJ_A		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५८६)/सेवा-३	29/02/2024
222	SATISH BHANUDAS MANTE	NT_D		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१००२)/सेवा-३	29/02/2024
223	SAVANI SHANTARAM NERLEKAR	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०९६)/सेवा-३	29/02/2024
224	DINESH MOHAN CHAUDHARI	ST		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५६४)/सेवा-३	29/02/2024
225	AMOL RAMKISHAN MUSALE	OPEN		Radiologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११३)/सेवा-३	29/02/2024
226	PREETI BAIZNATH MOHATA	OPEN		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९५)/सेवा-३	29/02/2024
227	RUTUJA RAJESHWAR TADKASE	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०५५)/सेवा-३	29/02/2024
228	HRISHIKESH VIJAY AWHALE	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१४३०)/सेवा-३	29/02/2024
229	ANIKET LAXMAN PALHADE	OBC	Sport	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११९२)/सेवा-३	29/02/2024
230	MITTAL MAHADEORAO GEDAM	SC		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४८७)/सेवा-३	29/02/2024
231	MANJIRI SANJAY PAWAR	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०३१)/सेवा-३	29/02/2024

232	SAEMA HABEEBURRAHMAN ANSARI	OBC		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७१३)/सेवा-३	29/02/2024
233	SUJATA KUNDLIK CHAVAN	EWS	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३६४)/सेवा-३	29/02/2024
234	NAYANSI HIMMATRAO NIKAM	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११७९)/सेवा-३	29/02/2024
235	AMIT RAMCHANDRA SARAVADE	SC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१४२०)/सेवा-३	29/02/2024
236	VAIBHAV RADHAKISAN R AUT	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१११२)/सेवा-३	29/02/2024
237	ROHINI RAMCHANDRA CHILAMPANDE	OPEN	Sport	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७८०)/सेवा-३	29/02/2024
238	AKSHATA SANJAY PATIL	OPEN	Women	Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४३५)/सेवा-३	29/02/2024
239	SWAPNIL RAJENDRA THORAT	SBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२०७)/सेवा-३	29/02/2024
240	NETRA AJAY NAMDE	NT_B	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९५६)/सेवा-३	29/02/2024
241	NIMISH BAPU DHENDE	SC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१४१९)/सेवा-३	29/02/2024
242	LAXMI VISHNUKANT GABHANE	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०२७)/सेवा-३	29/02/2024
243	SWATI DATTATRAY ASOLE	SC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८५८)/सेवा-३	29/02/2024
244	RAM BIHADE	OBC		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६९०)/सेवा-३	29/02/2024
245	PRASHANTKUMAR MADHAVRAO SURYAWANSHI	SC		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५०७)/सेवा-३	29/02/2024
246	BASAVRAJ PRABHAKAR HANJAGE	SBC		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७४३)/सेवा-३	29/02/2024

247	SWATI SURESHRAO SHENDE	OPEN	Women	Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४३१)/सेवा-३	29/02/2024
248	DURVA JANARDAN POTDAR	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११३५)/सेवा-३	29/02/2024
249	BHOSALE AKSHAY SUDHAKARRAO	OPEN		Orthopaedic Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१९९)/सेवा-३	29/02/2024
250	MOMIN SHAMAILA SHAFEEQUI SHAFEEQUE AHMED	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११२९)/सेवा-३	29/02/2024
251	AISHWARYA SANJAY KALMEGH	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११०९)/सेवा-३	29/02/2024
252	KANCHAN SHANKARRAO KALEWAD	ST	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९०६)/सेवा-३	29/02/2024
253	PRAJAKTA PRADEEP MORE	SC	PWD	Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१)/सेवा-३	29/02/2024
254	SWEETY TEKCHAND KATRE	OPEN		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१७०)/सेवा-३	29/02/2024
255	SHITAL RAJU BAVISKAR	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११०४)/सेवा-३	29/02/2024
256	VAIBHAV VISHWAMBHAR CHANDAPURE	OPEN		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१८०)/सेवा-३	29/02/2024
257	PRIYANKA CHANDRASHEKHAR MALI	OPEN	Women	Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३७५)/सेवा-३	29/02/2024
258	SAVITA DHONDIBA PALLEWAD	ST	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९१५)/सेवा-३	29/02/2024
259	RASHMI ASHOK CHAUDHARI	OPEN		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०४)/सेवा-३	29/02/2024
260	ANCHAL NAVARANG LOHIYA	OPEN		Pathologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०५)/सेवा-३	29/02/2024
261	ADITI TUKARAM PALMATE	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११३९)/सेवा-३	29/02/2024

262	SAGAR ABHILASH NEELKANTHRAO	OPEN		Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८८)/सेवा-३	29/02/2024
263	NISHA RAVINDRA DHAVAN	SBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२१५)/सेवा-३	29/02/2024
264	SAYALI GAJANAN JIBHAKATE	OPEN		Ear-Nose- Throat (ENT)	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५६)/सेवा-३	29/02/2024
265	NISHITA SANTOSH KADAM	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११८२)/सेवा-३	29/02/2024
266	MANASI PRAKASH CHAVAN	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२८१)/सेवा-३	29/02/2024
267	ANKITA TIKALKAR	OPEN		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२३०)/सेवा-३	29/02/2024
268	CHAITANYA SURESH DHOTRE	VJ_A		Radiologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५९५)/सेवा-३	29/02/2024
269	VAIBHAV AGATRAO GALGUNDE	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३४६)/सेवा-३	29/02/2024
270	SNEHAL HARIBA MALI	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११३७)/सेवा-३	29/02/2024
271	NIRANJAN RAMAKANT SAWANT	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२८२)/सेवा-३	29/02/2024
272	SHASHIKANT KRISHNADAS BADDELA	NT_B		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६०७)/सेवा-३	29/02/2024
273	CHANDRAJEETSINGH TALE	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११०५)/सेवा-३	29/02/2024
274	SHUBHAM RAJENDRA WAGHDHARE	OBC	Sport	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११९३)/सेवा-३	29/02/2024
275	RAKHI RAMESH SHEVGAN	VJ_A	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९४२)/सेवा-३	29/02/2024
276	RUTUJA ANIL WASULE	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११२४)/सेवा-३	29/02/2024
277	NISHIGANDHA VIJAY SONAWANE	OPEN	Women	Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३४५)/सेवा-३	29/02/2024

278	VARSHA SHIVAJI GAWADE	OPEN	Sport	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७७८)/सेवा-३	29/02/2024
279	KAJAL SURESH WAGH	NT_D	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०११)/सेवा-३	29/02/2024
280	VAISHNAVI ASHOK HATWAR	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०६५)/सेवा-३	29/02/2024
281	SUMAIRA FATIMA MOHAMMED YOUSUF KHAN	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२२८)/सेवा-३	29/02/2024
282	ABHISHEK GOPAL PAGARE	SC	PWD	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७५५)/सेवा-३	29/02/2024
283	HARSHAL KAUTIKRAO JANJAL	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२६३)/सेवा-३	29/02/2024
284	PRAVIN BABURAO SANAP	NT_D		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१००७)/सेवा-३	29/02/2024
285	KAUSTUBH ABNAVE	OPEN		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३५)/सेवा-३	29/02/2024
286	PRACHI SUDHAKAR SANKHE	OPEN		Ophthalmologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२५०)/सेवा-३	29/02/2024
287	AMIT PRAKASH SWAMI	OPEN		Dermatologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५१)/सेवा-३	29/02/2024
288	MAHADEO PRABHAKAR SAWANT	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३२८)/सेवा-३	29/02/2024
289	SNEHAL PATIL	OBC		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७२६)/सेवा-३	29/02/2024
290	ASHWINI SHARAD DHOTE	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११७१)/सेवा-३	29/02/2024
291	UTKARSHA SADASHIV PADWAL	OPEN	Women	Ophthalmologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३३७)/सेवा-३	29/02/2024
292	SONALI SANJAYRAO DEOTE	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११६१)/सेवा-३	29/02/2024
293	ASHWINI VASANT PATLE	OPEN	Women	Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३	29/02/2024

					(३४८)/सेवा-३	
294	RAHUL SHAHAJI CHAVAN	VJ_A	PWD	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७६३)/सेवा-३	29/02/2024
295	PRAJKTA SURENDRA PATIL	OPEN	Orphan	PSM	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४)/सेवा-३	29/02/2024
296	VAIBHAV VISHWANATH PATOLE	SC		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४७०)/सेवा-३	29/02/2024
297	SHITAL RAMESH BHAGAT	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११६४)/सेवा-३	29/02/2024
298	KAJAL KISHOR GURUBANI	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१४४०)/सेवा-३	29/02/2024
299	GAURAV VIJAYRAO DESHMUKH	OPEN	Sport	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७७७)/सेवा-३	29/02/2024
300	SNEHA VIJAYSING SOLANKE	ST	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९१४)/सेवा-३	29/02/2024
301	SHRIKRISHNA VISHWAMBHAR PAWAR	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३३७)/सेवा-३	29/02/2024
302	QUADRI RIFAN FRAH ZAMEERUDDIN QUADRI	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३४७)/सेवा-३	29/02/2024
303	BHAGYASHRI SURYAKANT BHURE	NT_C	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९८०)/सेवा-३	29/02/2024
304	DIGVIJAY BABAN MOTE	NT_C	Sport	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९९६)/सेवा-३	29/02/2024
305	HARSHA SAHEBRAO SHEJA O	OPEN		Ophthalmologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२३४)/सेवा-३	29/02/2024
306	AKASHKUMAR SHALIKRAM DONGARWAR	NT_B		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६११)/सेवा-३	29/02/2024
307	SNEHAL BHARAT SURYAWANSHI	SC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८१५)/सेवा-३	29/02/2024
308	KHAN RUBINA GULAM AHMED KHAN	OPEN	PWD	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७५४)/सेवा-३	29/02/2024

309	SEEMA VITTHALRAO KONDAMANGAL	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०३६)/सेवा-३	29/02/2024
310	PRANAV RAVI KULKARNI	OPEN		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२५४)/सेवा-३	29/02/2024
311	KIRAN MAHADU PARADHI	ST		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५७९)/सेवा-३	29/02/2024
312	SWARUPA BHAGWAT KANTHALE	NT_D	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०१०)/सेवा-३	29/02/2024
313	SNEHAL ARUN CHAVHAN	VJ_A	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९४६)/सेवा-३	29/02/2024
314	NEETA SHANTARAM PATIL	OPEN	Women	Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४१२)/सेवा-३	29/02/2024
315	SHRIKANT BANKAR	SC		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४९९)/सेवा-३	29/02/2024
316	PRAJAKTA VIJAY MOHOD	OPEN		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२१९)/सेवा-३	29/02/2024
317	KALYANI RAMESHWAR RAUT	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०८४)/सेवा-३	29/02/2024
318	NITIN SUKHDEO DUDHE	SC		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५४०)/सेवा-३	29/02/2024
319	DIPALI SHRIKRISHNA DHEKALE	OPEN	Women	Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४४०)/सेवा-३	29/02/2024
320	AISHWARYA BALAJIRAO SURYAWANSHI	EWS	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१४१०)/सेवा-३	29/02/2024
321	DNYANESHWAR TUKARAM GIRAM	OPEN	PWD	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७५८)/सेवा-३	29/02/2024
322	DEORE PANKAJ TUKARAM	OBC		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६८९)/सेवा-३	29/02/2024
323	CHETAN RAJENDRA JADHAV	OBC		PSM	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६८३)/सेवा-३	29/02/2024
324	DIPALI PRALHAD KAGNE	OPEN		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११७)/सेवा-३	29/02/2024

325	DHANASHREE VISHNU KHADE	OPEN		PSM	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१९१)/सेवा-३	29/02/2024
326	CHAKRADHAR ASHOK JADHAV	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३३२)/सेवा-३	29/02/2024
327	GHONGADE SONALI NAGNATH	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११२६)/सेवा-३	29/02/2024
328	SHRADDHA MANOHAR GAIGOL	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११८६)/सेवा-३	29/02/2024
329	UNNATI ANILRAO KUMBHARE	SBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११९९)/सेवा-३	29/02/2024
330	SHAMILI IRANNA AKULWAR	OPEN		Anansthethist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२६२)/सेवा-३	29/02/2024
331	GAURI VIVEKANAND SWAMI	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११४०)/सेवा-३	29/02/2024
332	ANUJ DASHRATH PATIL	SC		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४८१)/सेवा-३	29/02/2024
333	SOURAV VITTHAL MULEY	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११०३)/सेवा-३	29/02/2024
334	GAIKWAD SUNITA MADAVRAO	OPEN	Women	Anansthethist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३१८)/सेवा-३	29/02/2024
335	SHAIKH ANHAR ANVARMIYA	EWS	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३९५)/सेवा-३	29/02/2024
336	PATIL DIPALI SAMBHAJI	SC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८००)/सेवा-३	29/02/2024
337	YOGESHWARI VYANKATRAO CHAVAN	OPEN		Gynacologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८१)/सेवा-३	29/02/2024
338	BHARAT MANOHAR LAHANE	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०४७)/सेवा-३	29/02/2024
339	BHAGYASHRI SUBHASH INGLE	SC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८४९)/सेवा-३	29/02/2024
340	DNYANESHWAR SANJEEV GAIKWAD	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३१२)/सेवा-३	29/02/2024

341	RAVI PRALHADRAO GUNDARE	OBC		Blood Transfusion	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६९९)/सेवा-३	29/02/2024
342	NAGESH RAJKUMAR DAKE	OBC		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७०८)/सेवा-३	29/02/2024
343	AJAY UDDHAVRAO CHAVAN	OPEN		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२)/सेवा-३	29/02/2024
344	MITIL DEEPAK GALA	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२७७)/सेवा-३	29/02/2024
345	PAYAL PRABHAKAR KHAMITKAR	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०४०)/सेवा-३	29/02/2024
346	PRIYANKA JAYANT MANE	OPEN		Rediologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१७२)/सेवा-३	29/02/2024
347	CHAITALI SUBHASH SAINKAR	OPEN	Women	Gynacologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४३७)/सेवा-३	29/02/2024
348	ATUL MANCHAKRAO YADAV	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२७०)/सेवा-३	29/02/2024
349	SANIYA MAHESH SANKHE	NT_D		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९९७)/सेवा-३	29/02/2024
350	RASIKA PURUSHOTTAM WANJARI	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०९५)/सेवा-३	29/02/2024
351	PAIJAN GOKUL ADE	VJ_A		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९३३)/सेवा-३	29/02/2024
352	RUTUJA DNYANESHWAR GORDE	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०६१)/सेवा-३	29/02/2024
353	TEJAL AJIT BHAVSAR	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०९१)/सेवा-३	29/02/2024
354	AISHWARYA GANESH CHAVAN	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२९०)/सेवा-३	29/02/2024
355	SONALI SATPUTE	ST	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९०१)/सेवा-३	29/02/2024
356	PALLAVI MADHUKAR UNHALE	OPEN	Women	Gynacologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३८३)/सेवा-३	29/02/2024

357	SAMIKSHA BALKRUSHNA HARLE	SC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८२४)/सेवा-३	29/02/2024
358	AISHWARYA ARUN KADAM	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३२४)/सेवा-३	29/02/2024
359	SUMIT HALU SONPIMPALE	OPEN		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२३३)/सेवा-३	29/02/2024
360	SANAMKUMAR PRAKASH DESHBHRATAR	OPEN		Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१९३)/सेवा-३	29/02/2024
361	SHAIKH ZEB FIRDOUS MOHD NEMATULLAH	OPEN		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३१)/सेवा-३	29/02/2024
362	POOJA VINAYAK PATIL	OPEN	Women	Ophthalmologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३१५)/सेवा-३	29/02/2024
363	SNEHAL MILIND DANDGE	OPEN		Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१९८)/सेवा-३	29/02/2024
364	AJAY DNYANESHWAR ATHAWALE	SC		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४५४)/सेवा-३	29/02/2024
365	SHARYU PADMANABH TAWARE	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११८०)/सेवा-३	29/02/2024
366	SAYALI SHRIKANT BIDAY	OPEN		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२२७)/सेवा-३	29/02/2024
367	BHARATI SHANKAR RANGARI	OPEN		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२५६)/सेवा-३	29/02/2024
368	BIPIN BHIMRAO RATHOD	VJ_A		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५९४)/सेवा-३	29/02/2024
369	SONAL RATAN MAHAJAN	OPEN	Women	Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३७०)/सेवा-३	29/02/2024
370	ADITYA DINKARRAO KAMTALWAR	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२६०)/सेवा-३	29/02/2024
371	BUSHRA ANIS FAROOQUI	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२९६)/सेवा-३	29/02/2024
372	DIPALI YADAVRAO GOTHEY	OPEN		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२९०)/सेवा-३	29/02/2024

373	ASMITA ASHOK SHAHAPURE	OPEN		Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३२)/सेवा-३	29/02/2024
374	SHAMILI IRANNA AKULWAR	OPEN		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२६१)/सेवा-३	29/02/2024
375	PRAVIN DAYARAM DHOTE	OBC		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६६५)/सेवा-३	29/02/2024
376	SHYAM BHUJANGRAO DALVI	OBC		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७३४)/सेवा-३	29/02/2024
377	SAHEBRAO GANGADHAR MADNURE	OBC		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६८८)/सेवा-३	29/02/2024
378	MANSI MADHUKAR GANVIR	SC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८१८)/सेवा-३	29/02/2024
379	AAKANKSHA SUNIL NAKIL	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२३२)/सेवा-३	29/02/2024
380	AAQUIB RAZA ABDUL QUAYYUM HARKARE	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३४०)/सेवा-३	29/02/2024
381	RAJSHRI MAHADEV YESAGE	OPEN	Women	Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४२७)/सेवा-३	29/02/2024
382	PRASHANT SHANTARAM MAHAJAN	OBC		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७१६)/सेवा-३	29/02/2024
383	NEETU RAJKUMAR BISWAS	EWS	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३७८)/सेवा-३	29/02/2024
384	BHAGYASHRI BHAUSAHEB DESALE	OBC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (११४३)/सेवा-३	29/02/2024
385	BHUMIKA RAJESH JAISWAL	OPEN		Psychiatrist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२२१)/सेवा-३	29/02/2024
386	NEHA WALMIK SHENDE	OPEN	Women	Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३७७)/सेवा-३	29/02/2024
387	CHAYA GANAPATI GAWALE	OPEN		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३०५)/सेवा-३	29/02/2024
388	ADITYA PRAKASH RATHOD	VJ_A		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९२८)/सेवा-३	29/02/2024

389	PRAVEENA VITTHALRAO FA SATE	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०२२)/सेवा-३	29/02/2024
390	KEVAL R DHONE	OBC		Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६८६)/सेवा-३	29/02/2024
391	RUKMINI DHANANJAY PURI	NT_B		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९५३)/सेवा-३	29/02/2024
392	SHARVARI BALKRISHNA DESHPANDE	EWS	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३५७)/सेवा-३	29/02/2024
393	MANGESH DNYANOBA BANSODE	SC		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४५८)/सेवा-३	29/02/2024
394	PRAJAKTA SUNDARRAO SONAWANE	NT_D	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०१३)/सेवा-३	29/02/2024
395	PAWAR AJAY RAGHUVIRSINGH	VJ_A		Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५९०)/सेवा-३	29/02/2024
396	TEJASWINI PUNDALIK SONAWANE	OPEN		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१४७)/सेवा-३	29/02/2024
397	SHWETA SANJAY GAWANDE	SC		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५२५)/सेवा-३	29/02/2024
398	SUNIL RAMRAO PAWAR	OPEN		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१७)/सेवा-३	29/02/2024
399	DEORE	SC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८४६)/सेवा-३	29/02/2024
400	PRANALI MUKUNDRAJ WASNIK	SC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८५३)/सेवा-३	29/02/2024
401	MISAL MANOJ ZINGRAJI	OPEN		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१८)/सेवा-३	29/02/2024
402	UNMESHA DNYANDEO GORAKHE	SC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७८८)/सेवा-३	29/02/2024
403	PRITY ASHOKRAO WASANKAR	OBC		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७२३)/सेवा-३	29/02/2024
404	AMOL SHRIRAM MORE	SC		Rediologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५४३)/सेवा-३	29/02/2024

405	SONAL PRAKASH PATIL	OPEN	Women	Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४४६)/सेवा-३	29/02/2024
406	SHIVANI SHRIRAM KAKDE	EWS	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१४०५)/सेवा-३	29/02/2024
407	POOJA VITTHALRAO DOPE	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३२०)/सेवा-३	29/02/2024
408	ADIL A RAHEMAN AKBANI	OBC		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६६८)/सेवा-३	29/02/2024
409	SAINATH MANIKRAO JAGTAP	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३१७)/सेवा-३	29/02/2024
410	MURTUJA AMIRMIYA SHAIKH	OPEN		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२२९)/सेवा-३	29/02/2024
411	KETAKI JAYANT PATIL	OPEN		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०८)/सेवा-३	29/02/2024
412	DR.PRAVIN KISAN JADHAV	VJ_A		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५८९)/सेवा-३	29/02/2024
413	MONICA ANIL SURYAVANSHI	OPEN		Pathologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१०२)/सेवा-३	29/02/2024
414	NISHANT PANJABRAO CHAVAN	VJ_A		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९२९)/सेवा-३	29/02/2024
415	PARAG SHRIKRUSHNA DESHMUKH	OPEN		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (२१६)/सेवा-३	29/02/2024
416	MRUNAL SUNIL KAMBLE	SC	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८४४)/सेवा-३	29/02/2024
417	SWAPNA SHIVAJI KADAM	OPEN	Women	Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३३२)/सेवा-३	29/02/2024
418	VARSHA SHIVAJI CHOUGULE	OPEN	Women	Radiologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४२६)/सेवा-३	29/02/2024
419	RAJESHREE SUSHIL DHOK	OPEN		PSM	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३७)/सेवा-३	29/02/2024
420	DNYANESHWAR PRABHAKAR AHIRE	SC		Orthopaedic Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४८९)/सेवा-३	29/02/2024

421	AFRIN AFTABALI KHOJA	OPEN		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३५)/सेवा-३	29/02/2024
422	KAMLESH JEEVANDAS WASNIK	SC		Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (४६०)/सेवा-३	29/02/2024
423	PIYU RAJESH DONGRE	SC		Anansthelist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५३७)/सेवा-३	29/02/2024
424	PRASHANT PANDIT SHELKE	ST		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (८७०)/सेवा-३	29/02/2024
425	RUPALI AMANNA GAVADE	NT_C		Gynacologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६४४)/सेवा-३	29/02/2024
426	DATTARAO LAXMANRAO THOMBARE	NT_C		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९७४)/सेवा-३	29/02/2024
427	MAHESH VYANKATRAO CHANAP	ST		Surgeon	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (५६९)/सेवा-३	29/02/2024
428	NEHA SATISH SASWADE	OPEN	Women	Ophthalmologi st	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३९२)/सेवा-३	29/02/2024
429	BHUMESHWARI KESHAV GAHANE	OBC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९०८९)/सेवा-३	29/02/2024
430	SONAL TUKARAM SOMWANSHI	OPEN	Women	Gynacologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (३७८)/सेवा-३	29/02/2024
431	SWAPNALI CHANDRAHAR KSHIRSAGAR	OPEN		Gynacologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९७)/सेवा-३	29/02/2024
432	ROSHANI PANDHARI GHUGE	OPEN		Ophthalmologi st	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९६)/सेवा-३	29/02/2024
433	RAHUL PRABHAKAR MASKI	OBC		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६९४)/सेवा-३	29/02/2024
434	AJINKYA SURESHRAO GHOG ARE	OPEN		Psychiatrist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९०७)/सेवा-३	29/02/2024
435	POOJA SHESHRAO BALWANTE	ST	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९०९)/सेवा-३	29/02/2024

436	SNEHAL DNYANOBA WAGHMARE	SC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७९५)/सेवा-३	29/02/2024
437	MAMIDWAR MITALI BALAJI	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२८५)/सेवा-३	29/02/2024
438	PATILAJINKYA ANNA	EWS		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२३६)/सेवा-३	29/02/2024
439	SUNIL SUBHASH BOBADE	OPEN	Orphan	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७६८)/सेवा-३	29/02/2024
440	SACHIN PRAKASHRAO SANGLE	NT_D		Pediatrician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६५७)/सेवा-३	29/02/2024
441	UMME SHURAIK RAFEEDA ABDUL QUADEER	NT_B	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९६३)/सेवा-३	29/02/2024
442	AKSHAY DNYANDEO CHAVAN	OPEN		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१४९)/सेवा-३	29/02/2024
443	RASHMI SHRIRAM AKOSKAR	ST	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९०३)/सेवा-३	29/02/2024
444	SHIVANI GANESH JADHAO	VJ_A		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (९३६)/सेवा-३	29/02/2024
445	PRIYANKA DNYANOBA PHUNDE	OPEN		Gynecologist	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१२९)/सेवा-३	29/02/2024
446	MOHINI AVINASH JADHAV	SC		MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (७९३)/सेवा-३	29/02/2024
447	POONAM DHANANJAY JOSHI	EWS	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३५५)/सेवा-३	29/02/2024
448	MAHESH PANDIT THAKARE	OBC		Physician	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (६९१)/सेवा-३	29/02/2024
449	PRERANA MAHADEV PAWAL	EWS	Women	MBBS	शासन आदेश क्रमांक: मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३ (१३५८)/सेवा-३	29/02/2024